

राज्यसमाचार

उत्तराखंड

कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए महाअभियान

- कोसी पुनर्जनन महाअभियान के पहले चरण का शुभारंभ अप्रैल 8को कार्यक्रम संयोजक व अध्यक्ष सीडीओ मयूर दीक्षित ने डीनापानी स्थित कसार देवी विद्यापीठ (गधोली) से किया। उन्होंने कोसी को कुमाऊं की 'लाइफ लाइन' बताया।जीवनदायिनी कोसी को पुनर्जीवित करने के लिए 1800 मीटर की ऊंचाई पर रिचार्ज जोन गधोली से पहले चरण का महाअभियान शुरू हो गया है। जीवनदायिनी को पुनर्जीवित कर उसे मूल स्वरूप में लाने के लिए जनसहयोग को जरूरी बताते हुए मिलजुल कर मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पंजाब

अगस्त में लगेंगे मीजल और रुबेला के टीके

- पोलियो के बाद मीजल यानी खसरा के 2020 तक खत्म करने व रुबेला पर काबू पाने का सपना पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब में पहली बार बड़े स्तर पर चलने वाली टीकाकरण की मुहिम तकनीकी कारणों के चलते फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ गई है।

जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके

- जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह झटके राज्य के विभिन्न हिस्सों में महसूस किए गए। हालांकि, इनमें किसी प्रकार नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है।खबरों के अनुसार श्रीनगर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में महसूस किए गए भूकंप

के झटकों की पुष्टि करते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है।

राष्ट्रीयसमाचार

प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्घाटन करेंगे

- वैश्विक ऊर्जा मानचित्र में भारत की बढ़ती अहमियत को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक (आईईएफ16) की मेजबानी भारत कर रहा है। 'आईईएफ16' विश्व भर के ऊर्जा मंत्रियों, औद्योगिक हस्तियों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा के भविष्य पर गहन चर्चाएं की जायेंगी।

आईईएफ और 16 वें फोरम का विवरण जानने के लिए कृपया यहां क्लिक करें

भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता करार

- पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते असर को कम करने में जुटे भारत ने बांग्लादेश को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि तीस्ता नदी जल बंटवारे पर हुए समझौते को लागू करने में अब और देरी नहीं की जाएगी। दोनो देशों के बीच जो छह समझौते हुए, वे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बांग्लादेश को चीन के पाले में जाने से रोकने में मददगार साबित होंगे।

ई-आधार पर अब होगा QR कोड

- ई-आधार पर अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) का डिजिटल साइन युक्त क्यूआर कोड होगा, जिसमें आधार धारक की फोटो के अलावा जनसांख्यिकीय विवरण भी होगा। इसके जरिये व्यक्ति की पहचान का ऑफलाइन सत्यापन बेहतर हो सकेगा।

अंतरराष्ट्रीयसमाचार

अमेरिका उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए तैयार है

- उत्तर कोरिया ने अमेरिका को बताया कि वह दोनों देशों के नेताओं के बीच निर्धारित बैठक में कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। समाचार एजेंसी सिन्हूआ के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर अपनी मंशा सीधे तौर पर अमेरिका को बताई है।

भारत-बांग्लादेश के बीच 6 समझौते

- भारत और बांग्लादेश के बीच 6 समझौतों (MoU) पर दस्तखत हुए हैं। भारत ने रोहिंग्या मामले के शांतिपूर्ण समाधान में सहयोग करने तथा तीस्ता जल वितरण समझौते पर जल्द दस्तखत की प्रतिबद्धता जताई।

विज्ञान समाचार

मानव इतिहास में पहली बार सूरज की यात्रा पर दुनिया का पहला यान

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सूर्य अभियान अपनी तैयारी के अंतिम चरणों में है। पार्कर सोलर प्रोब नाम का यह अभियान इस वर्ष 31 जुलाई को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लांच होगा। यह मानव इतिहास में पहली बार होगा जब कोई यान सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा।

व्यापार समाचार

दुनिया के सबसे व्यस्त हवाईअड्डों में दिल्ली का IGI टॉप पर

- एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची 2017 में भारत 16वें पायदानपर रहा। इससे पहले 2016 में वह 22वें स्थान पर था।

खेल समाचार**CWG 2018: CWG 100 मीटर दौड़ में अकानी सिमबाइन ने जीता गोल्ड**

- दक्षिण अफ्रीका के अकानी सिमबाइन ने सबको हैरान करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया।

CWG 2018: प्रदीप कुमार ने दिलाया वेटलिफ्टिंग में भारत को 9वां मेडल

- वेटलिफ्टिंग में प्रदीप सिंह ने 105 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है।

CWG 2018: 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू को गोल्ड

- भारत के जीतू राय ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के फाइनल में सोना जीता

CWG 2018: भारतीय बैडमिंटन मिक्स्ट टीम ने जीता गोल्ड मेडल

- भारत ने बैडमिंटन मिक्स्ट टीम इवेंट में मलेशिया को 3-1 से हराते हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया है।